

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2024—अग्रहायण 1, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम रितू शेवानी था जो कि मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर महक गावरा पत्नी सन्नी गावरा हो गया है. यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रितू गावरा दर्ज है. रितू गावरा/रितू शेवानी और महक गावरा मुझ एक ही महिला के नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे महक गावरा के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रितू शेवानी/रितू गावरा)

(G-2482)

नया नाम

(महक गावरा)

पत्नी – सन्नी गावरा

पता—न्यू लवली स्टूडियो चिटनिस की गोठ,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म के समय नाम निकुंज श्रीवास्तव था. जिसे परिवर्तन कर हितार्थ श्रीवास्तव कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके नये नाम हितार्थ श्रीवास्तव से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(नीरज श्रीवास्तव)

निवासी—एल-25, वृन्दावन धाम, इंदौर रोड,
उज्जैन (म.प्र.).

(G-2483)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय अभिलेख में मेरा नाम शाब्बीर शाह पिता स्व. अली हसन शाह क्वार्टर नं. 05, शिवबिहार कालोनी हरनिया खेड़ी महु, पोस्ट-रसलपुरा, जिला-इंदौर (म.प्र.) अंकित है, जिसे बदलकर मैं अपना नाम हाजी शाब्बीर शाह कर रहा हूँ, प्रकाशन उपरांत मुझे हाजी शाब्बीर शाह पिता स्व. अली हसन शाह के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(शाब्बीर शाह)

नया नाम
(हाजी शाब्बीर शाह)

(G-2484)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मुकुल गुप्ता पिता सतीश कुमार गुप्ता (Mukul Gupta S/o Satish Kumar Gupta) था जो कि मेरा ही नाम है। पर मैंने मेरे गुरु स्वामी जगन्नाथ दास जी से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की है जिसके अंतर्गत अब मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त नया नाम मुकुंद मोहन दास गुरु पिता जगन्नाथ दास हो गया है एवं उपरोक्त दोनों नाम मुकुल गुप्ता पिता सतीश कुमार गुप्ता एवं मुकुंद मोहन दास गुरु पिता जगन्नाथ दास एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम मुकुंद मोहन दास गुरु पिता जगन्नाथ दास (Mukund Mohan Das S/o Jagannath Das) से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा व बोला जाये।

पुराना नाम
(मुकुल गुप्ता)

नया नाम
(मुकुंद मोहन दास)

(G-2485)

निवासी : नरसिंह टेकरी आश्रम ओंकारेश्वर
जिला खण्डवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम किशोर हेमनानी पिता ढालुमल हेमनानी था जो मेरा ही पूर्व का नाम था पर अब मैंने मेरा नाम बदलकर कालुमल हेमनानी पिता ढालुमल हेमनानी कर लिया है। उपरोक्त दोनों नाम किशोर हेमनानी पिता ढालुमल हेमनानी एवं कालुमल हेमनानी पिता ढालुमल हेमनानी एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कालुमल हेमनानी पिता ढालुमल हेमनानी (Kalumal Hemnani S/o Dhalumal Hemnani) से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा व बोला जाये।

पुराना नाम
(किशोर हेमनानी)

नया नाम
(कालुमल हेमनानी)

(G-2486)

निवासी : 998, स्कीम नंबर 114, पार्ट 1, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राहुल भट्ट पिता विशाल मणि भट्ट (Rahul Bhatt S/o Vishal Mani Bhatt) था जो कि मेरा ही नाम है। पर मैंने मेरे गुरु महंत श्याम सुन्दर दास जी से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की है जिसके अंतर्गत अब मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त नया नाम राघव दास गुरु पिता श्याम सुन्दर दास हो गया है एवं उपरोक्त दोनों नाम राहुल भट्ट पिता विशाल मणि भट्ट एवं राघव दास गुरु पिता श्याम सुन्दर दास एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम राघव दास गुरु पिता श्याम सुन्दर दास (Raghav Das S/o Shyam Sundar Das) से ही जाना-पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये।

पुराना नाम
(राहुल भट्ट)

नया नाम
(राघव दास)

(G-2487)

निवासी : नरसिंह टेकरी आश्रम ओंकारेश्वर, जिला खण्डवा, (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स आदिनाथ इन्फ्रा पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0191/24 व पंजीयन दिनांक 20 अगस्त 2024 तथा पता UG-1 श्रीवर्धन काम्प्लेक्स 4, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर, जिला इंदौर है जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 9 फरवरी 2019 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1. श्री अतुल कुमार कोठारी पिता श्री संतोष कुमार कोठारी 2. श्री अमित खंडेलवाल पिता श्री नेमी चंद खंडेलवाल थे. दिनांक 31 जनवरी 2024 को फर्म के 1 भागीदार श्री अमित खंडेलवाल पिता श्री नेमी चंद खंडेलवाल फर्म से पृथक् हो गए तथा इसी दिन एक नए भागीदार श्री नरेन्द्र सैनी पिता लखनलाल सैनी फर्म में शामिल हो गए तत्पश्चात् दिनांक 1 फरवरी 2024 को फर्म से एक भागीदार श्री नरेन्द्र सैनी पिता लखनलाल सैनी प्रथक् हो गए एवं 2. नए भागीदार श्री आदित्य मालपानी पिता श्री जी.डी. मालपानी एवं श्री अनिरुद्ध मालपानी पिता श्री जी.डी. मालपानी फर्म में शामिल हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में शेष 3 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं :- 1. श्री अतुल कुमार कोठारी पिता श्री संतोष कुमार कोठारी 2. श्री आदित्य मालपानी पिता श्री जी.डी. मालपानी 3. श्री अनिरुद्ध मालपानी पिता श्री जी.डी. मालपानी है.

फर्म – मेसर्स आदिनाथ इन्फ्रा
(अतुल कुमार कोठारी)

(G-2488)

भागीदार

पता : 17 A/552-C, न्यू पलासिया,
धोबी घाट के पास, इंदौर.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स माँ जोगनिया एक्सप्लोसिव पंजीयन क्रमांक 03/47/02/0032/17 व पंजीयन दिनांक 28 अप्रैल 2017 तथा पता अमरावती रोड, दरियापुर, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर है जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 8 फरवरी 2017 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1. श्री सुरेन्द्र सिंह पिता भवानी सिंह कानावत 2. श्रीमती अनिता पति श्री संजय चित्ते थे. दिनांक 24 मार्च 2023 को फर्म में एक नई भागीदार श्रीमती चंचल कंवर राजपूत पति सुरेन्द्र सिंह फर्म में शामिल हो गई. तत्पश्चात् दिनांक 24 अप्रैल 2023 को फर्म की एक भागीदार श्रीमती अनिता पति श्री संजय चित्ते फर्म से पृथक् हो गई. अतः वर्तमान में फर्म में शेष 2 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं :- 1. श्री सुरेन्द्र सिंह पिता भवानी सिंह कानावत 2. श्रीमती चंचल कंवर राजपूत पति सुरेन्द्र सिंह.

फर्म – मेसर्स माँ जोगनिया एक्सप्लोसिव
(सुरेन्द्र सिंह कानावत)

(G-2489)

भागीदार

पता : 342/1, ग्राम दर्यापुर, बुरहानपुर.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स अक्षय इन्फ्रास्ट्रक्चर पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00045/10 व पंजीयन दिनांक 25 मई 2010 तथा पता 409, प्रेसिडेंट टावर, मधुमिलन चौराहा, 6/2, साऊथ तुकोगंज, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर, जिला इंदौर है जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 18 सितम्बर 2007 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1. श्री ओमप्रकाश चावड़ा पिता श्री नारायण चावड़ा 2. श्रीमती रेखा पाटीदार पति श्री महेंद्र पाटीदार थे. दिनांक 30 जून 2015 को एक नए भागीदार श्री विनीत कुमार शर्मा पिता शैलेन्द्र कुमार शर्मा फर्म में शामिल हो गए तथा इसी दिन फर्म की एक भागीदार श्रीमती रेखा पाटीदार पति श्री महेंद्र पाटीदार फर्म से पृथक् हो गई. अतः वर्तमान में फर्म में शेष 2 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं :- 1. श्री ओमप्रकाश चावड़ा पिता श्री नारायण चावड़ा 2. श्री विनीत कुमार शर्मा पिता शैलेन्द्र कुमार शर्मा साथ ही दिनांक 16 अगस्त 2024 के विलेख अनुसार फर्म का पता बदलकर नया पता 150, आरएनटी मार्ग होटल रामा इन के पास इंदौर हो गया है.

फर्म – मेसर्स अक्षय इन्फ्रास्ट्रक्चर
(ओमप्रकाश चावड़ा)

(G-2490)

भागीदार

पता : 9, GM अनुपम नगर, स्कीम नंबर 54, इंदौर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर में बोलने वाला नाम दिलीप जवंजाल (DILIP JAWANJAL) जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम रविन्द्र कुमार जवंजाल (RAVINDRA KUMAR JAWANJAL) पुत्र श्री महादेव जवंजाल है, जो मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। दिलीप जवंजाल एवं रविन्द्र कुमार जवंजाल दोनों नाम मेरे ही यानि एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम रविन्द्र कुमार जवंजाल (RAVINDRA KUMAR JAWANJAL) पुत्र श्री महादेव जवंजाल के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम

(दिलीप जवंजाल)

(DILIP JAWANJAL)

(G-2491)

नया नाम

(रविन्द्र कुमार जवंजाल)

(RAVINDRA KUMAR JAWANJAL)

पुत्र – श्री महादेव जवंजाल

पता – रामनगर गंज, बैतूल, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में बोलने वाला नाम शरद जवंजाल (SHARAD JAWANJAL) जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम चंद्रशेखर जवंजाल (CHANDRASHEKHAR JAWANJAL) पुत्र श्री महादेव जवंजाल है, जो मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। शरद जवंजाल एवं चंद्रशेखर जवंजाल दोनों नाम मेरे ही यानि एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम चंद्रशेखर जवंजाल (CHANDRASHEKHAR JAWANJAL) पुत्र श्री महादेव जवंजाल के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम

(शरद जवंजाल)

(SHARAD JAWANJAL)

(G-2492)

नया नाम

(चंद्रशेखर जवंजाल)

(CHANDRASHEKHAR JAWANJAL)

पुत्र-श्री महादेव जवंजाल,

पता-रामनगर गंज, बैतूल.

नाम परिवर्तन

मैं, SUNIEL MOOLCHANDANI S/o. LATE SHRI GOPICHAND MOOLCHANDANI निवासी-मकान नं. 01, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) का होकर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे मार्कशीट, आधार कार्ड, पेन कार्ड व शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम SUNIL MOOLCHANDANI लिखा हुआ है, जबकि सही नाम SUNIEL MOOLCHANDANI है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः अब मुझे मेरे सही नाम SUNIEL MOOLCHANDANI से लिखा, पढ़ा व जाना-पहचाना जावे एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा।

पुराना नाम

(SUNIL MOOLCHANDANI)

(G-2493)

नया नाम

(SUNIEL MOOLCHANDANI)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S चन्द्रोदय बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पंता- मकान नं. 103, वार्ड क्र. 07, हुन्डई शोरूम के सामने बहेरिया तह. व जिला सागर दिनांक 13 मार्च 2019 को निम्न साझेदारों के बीच 1. भीष्म कुमार जैन पिता श्री बृजलाल जैन 2. दीपक कुमार जैन पिता श्री श्रेयांश कुमार जैन 3. श्री मनोज कुमार जैन पिता श्री कोमल चंद जैन 4. प्रदीप कुमार जैन पिता श्री कोमल चंद जैन 5. श्री गोविंद प्रसाद सैनी पिता श्री भूरेलाल सैनी 6. श्रीमति चंदा जैन पत्नी श्री नारायण दास जैन 7. श्री संयम जैन पिता श्री भीष्म कुमार जैन 8. श्री अशोक कुमार जैन पिता श्री अमीर चंद जैन 9. श्री पुनीत कुमार जैन पिता श्री विमल कुमार जैन 10. श्री ऋषभ कुमार जैन पिता श्री धन कुमार जैन 11. श्रीमती सोनिया जैन पत्नी श्री नितिन कुमार जैन 12. श्री विकास जैन पिता श्री विमल जैन के द्वारा निष्पादित कर दिनांक 22 मार्च 2019 को रजिस्टर्ड की गई जिसका रजि. क्र. 06/09/01//0027/19 है. उक्त साझेदारों में से श्री गोविंद प्रसाद सैनी पिता श्री भूरेलाल सैनी पता-एच.आई.जी. 34, पं दीनदयाल नगर मकरोनिया तह. व जिला सागर अपनी स्वेच्छा से दिनांक 1 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं. शेष 11 साझेदारों यथावत् रहेंगे.

फर्म - M/S चन्द्रोदय बिल्डर्स डवलपर्स,

(इंजी. भीष्म कुमार जैन)

भागीदार.

(G-2494)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s RAM SHRI HIGHWAY FILLING CENTER जो RAJGHAT GHARONA MANDIR KE PASS AB ROAD, MORENA में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0119/18 दिनांक 20 अगस्त 2018 है, जिसमें लिखतम 3 दिसंबर 2023 के अनुसार दिनांक 5 अगस्त 2022 को भागीदार श्री पूरन लाल आदिवासी पुत्र श्री लाहोरे आदिवासी निवासी-जवाहर कालोनी कराहल, श्योपुर, मुरैना (म.प्र.) की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से स्वतः पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 3 दिसंबर 2023 को अनिता धुर्वे पुत्री श्री आशीष कुमार धुर्वे निवासी-एच.-9, जी.वी. विलास जाटव खेड़ी विध्या नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं एवं दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को भागीदार अनीता धुर्वे पत्नी श्री आशीष कुमार धुर्वे निवासी-एच.-9, जी.वी. विलास जाटव खेड़ी, विध्या नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को राजु पुत्र श्री मुरारी सिंह निवासी गुर्जर कॉलोनी जौरी रोड, मुरैना (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

M/s RAM SHRI HIGHWAY FILLING CENTER

(महेन्द्र प्रताप सिंह)

भागीदार

(G-2495)

RAJGHAT GHARONA MANDIR KE PASS,
AB ROAD, MORENA.

नाम परिवर्तन

मैं, सबीया बानो (SABIYA BANO) पत्नी रहीम खान सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम शब्बो (SHABBO) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सबीया बानो पत्नी रहीम खान के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जो मेरे पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है सबीया बानो एवं शब्बो दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम शब्बो के स्थान पर सबीया बानो लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शब्बो)

(G-2496)

नया नाम

(सबीया बानो)

पत्नी-रहीम खान

पता - मुर्गी फारम, गिरवाई नाका, ग्वालियर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, रानू जैन (RANU JAIN) पत्नी श्री संजय जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राजश्री जैन (RAJSHRI JAIN) था जो मेरी पॉलिसी एवं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आईडी एवं अन्य शासकीय प्रपत्रों में लिखा है जबकि वर्तमान में मुझे रानू जैन पत्नी श्री संजय जैन के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे राशन कार्ड एवं मेरे बालक बालिकाओं के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रानू जैन एवं राजश्री जैन दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसी एवं अन्य शासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम राजश्री जैन के स्थान पर रानू जैन लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(राजश्री जैन)

(G-2497)

नया नाम
(रानू जैन)

पता-कदम साहब का बाडा के सामने,
मामा का बाडा, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, भानू (BHANU) पुत्र नाथु सिंह गुर्जर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम मनीराम गुर्जर (MANEERAM GURJAR) था जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, भानू पुत्र नाथु सिंह गुर्जर के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ. जो मेरे पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. भानू एवं मनीराम गुर्जर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम मनीराम गुर्जर के स्थान पर भानू लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(मनीराम गुर्जर)

(G-2498)

नया नाम
(भानू)

पुत्र-नाथु सिंह गुर्जर

पता-नर्मदा कॉलोनी, बालिया वाली गली,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रजनी दादौरिया (RAJNI DADORIYA) पत्नी राजेश कुमार, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरे नाम की गलती से (RAJNI DODORIA) लिखा गया था. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रजनी दादौरिया (RAJNI DADORIYA) पत्नी राजेश कुमार के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम (RAJNI DODORIA) के स्थान पर (RAJNI DADORIYA) लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रजनी दादौरिया)
(RAJNI DODORIA)

(G-2499)

नया नाम
(रजनी दादौरिया)
(RAJNI DADORIYA)

पत्नी-राजेश कुमार

पता-23-1525, दुर्गा मेडिकल स्टोर, जोधा नगर,
नदी पार ताल मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीराम (SHRIRAM) पुत्र शंकर, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पूर्व का नाम शिवराम (SHIVRAM) था. जो मेरे सभी शासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे श्रीराम पुत्र शंकर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. श्रीराम एवं शिवराम दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे सभी शासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम शिवराम के स्थान पर श्रीराम लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शिवराम)
(G-2500)

नया नाम
(श्रीराम)
पुत्र-शंकर
पता-ढसगांव पोस्ट ढकलगांव,
तहसील बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, पलक भदौरिया (PALAK BHADORIYA) पुत्री उदय प्रताप भदौरिया, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम लता (LATA) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, पलक भदौरिया पुत्री उदय प्रताप भदौरिया के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. लता एवं पलक भदौरिया दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम लता के स्थान पर पलक भदौरिया लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(लता)
(G-2501)

नया नाम
(पलक भदौरिया)
पुत्री-उदय प्रताप भदौरिया
पता-613, संजय कॉलोनी, मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रिया राजपूत (Riya Rajput) पुत्री राजू राजपूत, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रिया राजपूत (Riya Rajput) पुत्री राजू राजपूत है जो कि सही है. परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम मोती अहिरवार (Moti Ahirwar) अंकित हो गया है जो कि गलत है. इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य दस्तावेजों में रिया राजपूत (Riya Rajput) पुत्री राजू राजपूत के नाम से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(मोती अहिरवार)
(Moti Ahirwar)
(G-2502)

नया नाम
(रिया राजपूत)
(Riya Rajput)
पुत्री-राजू राजपूत
पता-2, कस्बा इंदौर मल्हारगंज, एयरपोर्ट रोड,
आर्मी हैड क्वार्टर्स, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, ओमप्रकाश (OMPRAKASH) पुत्र श्री शिव सिंह तोमर, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम रामू था जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड में लिखा है जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र को योतिश पुत्र ओमप्रकाश के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रामू एवं योतिश दोनों मेरे पुत्र के ही नाम हैं. अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरे पुत्र रामू के स्थान पर योतिश लिखा एवं पढ़ा जावे.

(G-2503)

सूचनाकर्ता
पिता-ओमप्रकाश
पता-चिराई, भोनपुरा, भिंड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

हम ब्रजेश कुमार एवं कुसुम मीना, अपने पुत्री छनछन मीना (Chhanchhan Meena) का नाम परिवर्तित कर तनिष्का मीना (Tanishka Meena) करना चाहते हैं। इस प्रकाशन के उपरांत हमारी पुत्री को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में तनिष्का मीना (Tanishka Meena) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए।

(G-2504)

प्रार्थी

आत्मज-ब्रजेश कुमार

पता-2, सुहागपुर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, आरती श्रीवास्तव (ARTI SHRIVASTAVA) पत्नी पुष्पेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम ज्योति श्रीवास्तव (JYOTI SHRIVASTAVA) था जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, आरती श्रीवास्तव पत्नी पुष्पेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे वोटर कार्ड, समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। ज्योति श्रीवास्तव एवं आरती श्रीवास्तव दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम ज्योति श्रीवास्तव के स्थान पर आरती श्रीवास्तव लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(ज्योति श्रीवास्तव)

नया नाम

(आरती श्रीवास्तव)

पत्नी-पुष्पेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पता-वार्ड नं. 19, गली नं. 2, राधा कॉलोनी,
भिंड, अटेर, भिंड (म.प्र.).

(G-2505)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती नेहा धाकड़ (Neha Dhakad) पत्नी श्री रामकृष्ण धाकड़ (Ramkrishna Dhakad) निवासी-मोहबतपुर तह. लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) पूर्व में मेरा नाम नेहा (Neha) पत्नी श्री रामकृष्ण धाकड़ (Ramkrishna Dhakad) था किंतु अब मेरे द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती नेहा धाकड़ (Neha Dhakad) पत्नी श्री रामकृष्ण धाकड़ (Ramkrishna Dhakad) कर लिया गया है। अब मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती नेहा धाकड़ (Neha Dhakad) पत्नी श्री रामकृष्ण धाकड़ (Ramkrishna Dhakad) के नाम से जाना पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(नेहा)

(Neha)

(G-2506)

नया नाम

(नेहा धाकड़)

(Neha Dhakad)

पत्नी-श्री रामकृष्ण धाकड़

(RAMKRISHNA DHAKAD)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मनोरमा गोस्वामी (Manorama Goswami) पत्नी श्री मातागिरी (Matagiri) हूँ, पूर्व में मेरा नाम गुड्डी (Guddi) पत्नी श्री मातागिरी (Matagiri) था किंतु अब मेरे द्वारा अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती मनोरमा गोस्वामी (Manorama Goswami) पत्नी श्री मातागिरी (Matagiri) कर लिया गया है। अब मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती मनोरमा गोस्वामी (Manorama Goswami) पत्नी श्री मातागिरी (Matagiri) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(गुड्डी)

(Guddi)

(G-2507)

नया नाम

(मनोरमा गोस्वामी)

(Manorama Goswami)

पत्नी-श्री मातागिरी (Matagiri)

निवासी :- ग्राम उरहेरा, पोस्ट छैरा,
तह. जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मो. अलाउद्दीन उमर (MD. ALAUDDIN UMAR) पुत्र श्री मो. मजरूर हक (MOHD. MAJROOR HAK), पता-319 ए, गंगा नगर, बाणगंगा, नॉर्थ टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.) का हूँ, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मो. आदिल (MOHD. ADIL) दर्ज है किंतु अन्य सभी दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम मो. अलाउद्दीन उमर (MD. ALAUDDIN UMAR) पुत्र श्री मो. मजरूर हक (MOHD. MAJROOR HAK) है। मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ प्रकाशन उपरांत मुझे मो. अलाउद्दीन उमर (MD. ALAUDDIN UMAR) पुत्र श्री मो. मजरूर हक (MOHD. MAJROOR HAK) के नाम से जाना, पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(मो. आदिल)
(MOHD. ADIL)

(G-2508)

नया नाम

(मो. अलाउद्दीन उमर)
(MD. ALAUDDIN UMAR)पुत्र-मो. मजरूर हक
(MOHD. MAJROOR HAK)**नाम परिवर्तन**

मैं, सुनील कविंद्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री नारायण सिंह रघुवंशी, निवासी-ग्राम अहमदपुर, पोस्ट खरगोन, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.) मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम Kavindra Singh Raghuwanshi अंकित है जो कि गलत है। मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड में मेरा नाम Sunil Kavindra Singh Raghuwanshi अंकित है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम (Sunil Kavindr Singh Raghuwanshi) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(Kavindra Singh Raghuwanshi)
(G-2509)

नया नाम

(Sunil Kavindr Singh Raghuwanshi)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कीर्ति रघुवंशी पत्नी श्री सुनील कविंद्र सिंह रघुवंशी, निवासी-म.नं. सी 87, पॉकेट 2, सागर रॉयल विलास, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम Saroj Singh Raghuwanshi अंकित है जो कि गलत है। मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड में मेरा नाम Kirti Raghuwanshi अंकित है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम Kirti Raghuwanshi के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(Saroj Singh Raghuwanshi)
(G-2510)

नया नाम

(Kirti Raghuwanshi)

नाम परिवर्तन

मैं, मंशाराम (MANSHARAM) S/o CHUNNILAL, R/o H.No. WARD NO. 07, BSNL COLONY KE SAMNE SANKHEDA NAKA ITARSI, NARMDAPURAM (M.P.) है, मेरे आधार कार्ड में नाम मंशाराम हुरमाले (MANSHARAM HURMALE) दर्ज है जबकि मेरा सही नाम मंशाराम (MANSHARAM) है, प्रकाशन उपरांत मैं, मंशाराम (MANSHARAM) नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम

(मंशाराम हुरमाले)
(MANSHARAM HURMALE)
(G-2511)

नया नाम

(मंशाराम)
(MANSHARAM)

नाम परिवर्तन

मैं, Satyendra Kumar (सत्येन्द्र कुमार) S/o Baban Prasad बबन प्रसाद, निवासी—मकान नं. 6/45 सुरज कुंज नगर, बरखेड़ा पठानी, हुजूर, भोपाल, (म.प्र.). मेरा नाम Satyendra Kumar (सत्येन्द्र कुमार) S/o Baban Prasad बबन प्रसाद है जो कि सही है. पूर्व में मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम Satyendra Kumar Rai S/o Baban Prasad Rai दर्ज था. प्रकाशन उपरांत मुझे Satyendra Kumar (सत्येन्द्र कुमार) S/o Baban Prasad बबन प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(Satyendra Kumar Rai)

(G-2512)

नया नाम

**(सत्येन्द्र कुमार)
(Satyendra Kumar)**

S/o Baban Prasad

(बबन प्रसाद).

नाम परिवर्तन

मैं, Gunjan Singh (गुंजन सिंह) W/o Satyendra Kumar (सत्येन्द्र कुमार), निवासी—मकान नं. 6/45 सुरज कुंज नगर, बरखेड़ा पठानी, हुजूर, भोपाल, (म.प्र.). मेरा नाम Gunjan Singh (गुंजन सिंह) W/o Satyendra Kumar (सत्येन्द्र कुमार) है जो कि सही है. पूर्व में मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम Gunjan Rai W/o Satyendra Rai दर्ज था. प्रकाशन उपरांत मुझे Gunjan Singh (गुंजन सिंह) W/o Satyendra Kumar (सत्येन्द्र कुमार) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(Gunjan Rai)

(G-2513)

नया नाम

**(गुंजन सिंह)
(Gunjan Singh)**

W/o Satyendra Kumar

(सत्येन्द्र कुमार).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डालचंद पाण्डेय (Dalchand Pandey) आत्मज, श्री रामकुमार पाण्डेय—निवासी—ग्राम मडखेरा जागीर, तह. जैसीनगर, जिला सागर, (म.प्र.). मेरे पुत्र लक्ष्यदीप पाण्डेय (Lakshdeep Pandey) के शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम डी.सी. पाण्डेय (D.C. Pandey) अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम डालचंद पाण्डेय (Dalchand Pandey) है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम डालचंद पाण्डेय (Dalchand Pandey) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

डालचंद पाण्डेय

(Dalchand Pandey)

(G-2514)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ARK CHEMICALS, 10 B, AKVN GROWTH CENTRE, SIDGUAN SAGAR (म.प्र.). पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0032/19 सन् 2019—2020 दिनांक 26 जून 2019 पर पंजीकृत है. उक्त फर्म में दिनांक 25 अगस्त 2023 को ABHILASH JAIN & ANIL JAIN भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 5 नवम्बर 2024 को ANIL JAIN स्वेच्छा से फर्म के भागीदारी से पृथक् हो गये. उक्त दिनांक 5 नवम्बर 2024 को KAMAL CHAND JAIN को फर्म के भागीदारी से सम्मिलित किया गया. वर्तमान में फर्म में ABHILASH JAIN & KAMAL CHAND JAIN भागीदार हैं. फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है.

प्रार्थी

(ABHILASH JAIN)

भागीदार

(G-2515)

फर्म—मेसर्स ARK CHEMICALS, 10 B, AKVN
GROWTH CENTRE, SIDGUAN SAGAR (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णा यादव पत्नी स्व. विवेक यादव (Krishna Yadav W/o Late Vivek Yadav) निवासी-म.नं. 299, दीक्षितपुरा, पूर्वी निवाड़गंज, महात्मा गाँधी वार्ड, जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित कर रही हूँ कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शालिनी यादव (Shalini Yadav) दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम कृष्णा यादव (Krishna Yadav) है जो कि मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है तथा उक्त नाम दोनों मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन के उपरान्त मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णा यादव (Krishna Yadav) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शालिनी यादव)
(Shalini Yadav)
(G-2516)

नया नाम
(कृष्णा यादव)
(Krishna Yadav)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि MYSTERIOUS INDUSTRIES जिसका रजि. पता-प्लॉट नं.-7, ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नौगाँव बीना (म.प्र.) हैं. यह कि भागीदारी फर्म दिनांक 6 फरवरी 2021 को दो भागीदार 1. RAKESH JAIN S/o SHRI MAHAVEER PRASAD JAIN, निवासी-32D/S2, SUBHASH NAGAR, KAMLA NAGAR, Agra, (UP) Pin-282005, 2. SHRENİK BADKUL S/o SHRI LATE SHRI SUBIRAJ BADKUL, निवासी-200, KANOONGO WARD, ITWARA BAZAR, BINA, SAGAR-470113, के बीच निष्पादित की गई थी एवं उक्त फर्म को 17 मई 2021 को असि. रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं में पंजीकृत किया गया, जिसका पंजीयन क्रमांक 0009/2021 है. उक्त फर्म से भागीदार RAKESH JAIN अपनी सहमति से बिना किसी दबाव के दिनांक 12 मार्च 2024 को छोड़ चुके हैं. दिनांक 12 मार्च 2024 को उक्त डीड को संशोधित किया गया, जिसके तहत संशोधित डीड में नवीन भागीदार Ms. Shilpa Jain D/o Mr. Sunil Jain आयु व्यस्क, निवासी 200, KANOONGO WARD, ITWARA BAZAR, BINA, SAGAR-470113, दिनांक 12 मार्च 2024 से अपनी हिस्सेदारी एवं शर्तों के साथ भागीदार बन रहे हैं.

MYSTERIOUS INDUSTRIES
(SHRENİK BADKUL)

(G-2517)

Add : 200, KANOONGO WARD, ITWARA BAZAR,
BINA, SAGAR.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. श्री वर्धमान इन्फ्राटेक पता-ब्लॉक नं. ए, प्लॉट नं. 1932, 13, रसल चौक, नेपियर टाउन, जबलपुर, (म.प्र.) 482001, जिसका फर्म एवं सोसायटी में पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0287/20 दिनांक 7 मार्च 2020. उक्त फर्म में दिनांक 1 मार्च 2023 से श्री रजनीत जैन पिता श्री डी.सी. जैन एवं गौतम घोष पिता श्री एम.एम. घोष अलग हो गये तथा नये भागीदारों के रूप में देवांशी पुत्री श्री गौतम घोष शामिल कर ली गई हैं. अब फर्म में निम्न भागीदार हैं :-

1. विशेष जैन पिता श्री रजनीत जैन
2. श्रीमती सपना जैन पति श्री रजनीत जैन
3. देवांशी घोष पिता श्री गौतम घोष

अतः भागीदारी फर्म में उक्त बदलाव कर दिए गए हैं तथा इस पर किसी भी भागीदारों को कोई आपत्ति नहीं है.

SHRI WARDHMAN INFRA TECH
(विशेष जैन)
भागीदार.

(G-2518)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही व वास्तविक नाम सावित्री चौधरी पति सुरेश चौधरी है जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सुमित्रा बाई पति सुरेश लिखा हुआ है. अतः मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम सुमित्रा बाई पति सुरेश लिखा हुआ है उन सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम सावित्री चौधरी पति सुरेश चौधरी ही लिखा व पढ़ा जाए.

पुराना नाम
(सुमित्रा बाई)

(G-2519)

नया नाम
(सावित्री चौधरी)
पति—सुरेश चौधरी
ग्राम—बुराना खेडी,
तह. कनाडिया, जिला—इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, परसराम शिल्पी आत्मज श्री बारेलाल शिल्पी, निवासी—वार्ड क्र. 05, आनंद नगर बाडी, पारतलई, जिला रायसेन, (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम प्रांकुर शिल्पी (PRANKUR SHILPI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश बलराम शिल्पी हो गया है, अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक व नये नाम प्रांकुर शिल्पी (PRANKUR SHILPI) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा.

(G-2520)

आवेदक
(परसराम शिल्पी)

नाम परिवर्तन

मैं, रवि कुमार गुप्ता (RAVI KUMAR GUPTA) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटि से रविंद्र कुमार गुप्ता (RAVINDRA KUMAR GUPTA) अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता (RAVI KUMAR GUPTA) अंकित है जो कि सही है. इस प्रकाशन के उपरांत मुझे रवि कुमार गुप्ता के नाम से ही पढ़ा लिखा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(रविंद्र कुमार गुप्ता)
RAVINDRA KUMAR GUPTA)

(G-2521)

नया नाम
(रवि कुमार गुप्ता)
(RAVI KUMAR GUPTA)
पता—फ्लैट नंबर 01, शिवम अपार्टमेंट तानसेन रोड,
लोको हंस विभु आश्रम के पास,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

PUBLIC NOTICE

As per Section 72 of the Indian Partnership Act, with effect from 6th August 2024 (1) Mr. Shorya Vardhan Saxena was retired from the partnership of the mentioned firm M/S. Desert Fox Reality, A-1, Ganesh Mandir Ke Samne, Pipliyahana Chouraha Ke Pas, Ganesh Dham, Indore, M.P. with effect from 6th August 2024 Now (1) Mr. Vivek Kumar Jain, (2) Mr. Shani Jain, (3) Proptrends Technology Pvt. Ltd. Auth. Mr. Vivek Kumar Jain are working partners of the firm.

For Desert Fox Reality

(Vivek Kumar Jain)

Partner.

(G-2522)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम सन्नी चौहान (SUNNY CHOUHAN) पिता प्रेमलाल चौहान है जो कि सही है तथा मेरे पूर्व के आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण-पत्र, समग्र आई.डी. पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड को अपडेट कराने में त्रुटिवश मेरा नाम देवेन्द्र (DEVENDR) दर्ज हो गया है जो कि गलत नाम है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सन्नी चौहान (SUNNY CHOUHAN) पिता प्रेमलाल चौहान के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(देवेन्द्र)

(DEVENDR)

(G-2523)

नया नाम

(सन्नी चौहान)

(SUNNY CHOUHAN)

पिता – प्रेमलाल चौहान

पता – 358, अनुराग नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम गुलाब महाजन (GULAB MAHAJAN) पिता श्री सुदामा महाजन है जो कि सही है तथा मेरे वोटर कार्ड, राशन कार्ड एवं समग्र आई.डी. सभी पर दर्ज है. किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा पूर्व नाम विजय महाजन (VIJAY MAHAJAN) पिता सुदामा महाजन दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर विजय महाजन (VIJAY MAHAJAN) के स्थान पर गुलाब महाजन (GULAB MAHAJAN) पिता श्री सुदामा महाजन लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(विजय महाजन)

(VIJAY MAHAJAN)

(G-2524)

नया नाम

(गुलाब महाजन)

(GULAB MAHAJAN)

पिता – श्री सुदामा महाजन

पता – 213, महादेव नगर, तेजपुर गडबडी, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश वालके पिता भिमराव, निवासी-ग्राम तिगांव, 46 तहसील पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरे भिन्न-भिन्न दस्तावेजों में मेरा नाम बंडु उर्फ बाबा है एवं कही पर सिर्फ बाबा है जो कि गलत है किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम प्रकाश वालके अंकित है जो कि सही है. मैं, अपने सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में प्रकाश वालके करवाना चाहता हूँ और भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(प्रकाश वालके)

(G-2525)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद अहसान खान पिता श्री मोहम्मद साबिर खान, निवासी-गुरुनानक वार्ड साहू कबाडी चौक, सिवनी तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.). यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज एवं शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम अहसान खान पिता साबिर खान अंकित है जिसे मैं, अब मोहम्मद अहसान खान पिता मोहम्मद साबिर खान Mohamad Ahsan Khan S/o Mohammad Shabir Khan दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद अहसान खान पिता मोहम्मद साबिर खान Mohamad Ahsan Khan S/o Mohammad Shabir Khan के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अहसान खान)

(G-2526)

नया नाम

(मोहम्मद अहसान खान)

पिता-मोहम्मद साबिर खान

**Mohamad Ahsan Khan
S/o Mohammad Shabir Khan**

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्र सेन आ. कृष्ण प्रताप सिंह, निवासी-सी.आई. पार्क ब्यू, कोलार रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मैंने अपना नाम चन्द्र सेन (CHANDRA SEN) से बदलकर यश प्रताप सिंह (YASH PRATAP SINGH) कर दिया है. अतः, मैं, यश प्रताप सिंह (YASH PRATAP SINGH) आ. कृष्ण प्रताप सिंह के नाम से शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी दस्तावेजों में जाना-पहचाना व पढ़ा जाऊंगा.

पुराना नाम

नया नाम

(चन्द्र सेन)

(यश प्रताप सिंह)

(CHANDRA SEN)

(YASH PRATAP SINGH)

(G-2527)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूरा नाम “प्रताप सिंह यादव” है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में मेरा नाम “प्रताप सिंह यादव” एवं कुछ स्थानों पर मेरा नाम “प्रताप सिंह” त्रुटिवश अंकित हो गया है. मुझे अपने नाम में संशोधन करके “प्रताप सिंह” के स्थान पर मेरा पूरा नाम “प्रताप सिंह यादव” परिवर्तन करना है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मेरे पूरे नाम “प्रताप सिंह यादव” के नाम से जाना व पहचाना जाये व अंकित किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(प्रताप सिंह)

(प्रताप सिंह यादव)

(G-2528)

नाम परिवर्तन

मैं, अंशुमन माहेश्वरी पुत्र अशोक माहेश्वरी, निवासी-म.नं. 255, के सामने, तानसेन नगर, तानसेन रोड गिर्द, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश जिम्मी माहेश्वरी (JIMMY MAHESHWARI) नाम दर्ज हो गया है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अंशुमन माहेश्वरी (ANSHUMAN MAHESHWARI) अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अंशुमन माहेश्वरी (ANSHUMAN MAHESHWARI) पुत्र अशोक माहेश्वरी के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(जिम्मी माहेश्वरी)

(अंशुमन माहेश्वरी)

(JIMMY MAHESHWARI)

(ANSHUMAN MAHESHWARI)

(G-2529)

पुत्र - अशोक माहेश्वरी

नाम परिवर्तन

मैं, सलमान खां पुत्र शेख अब्दुल, निवासी-ग्राम सिलावन, पोस्ट पिपरई, अशोक नगर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश रजिया बी नाम दर्ज हो गया है, जबकि उसके अन्य दस्तावेजों में आलिया खान (ALIYA KHAN) पुत्री सलमान खां अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम आलिया खान (ALIYA KHAN) पुत्री सलमान खां के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(सलमान खां)

(G-2530)

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
गौहरगंज, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

प्ररूप क्र. 5

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962
के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन के समक्ष

क्र.-1283-अ.पि.अ.-रजि. ट्रस्ट-2024.- यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिये, मैं, चन्द्रशेखर श्रीवास्तव लोक न्यासों का पंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन मेरे न्यायालय में 2024 के अक्टूबर के 25 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) यथाअपेक्षित, मामले में जाँच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम व पता :- श्री रामजानकी मंदिर समिति न्यास ग्राम चम्पानेर, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.).
2. कार्यालय का पता :- ग्राम चम्पानेर, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.).
3. अचल सम्पत्ति का विवरण :- ग्राम चम्पानेर, तहसील सुल्तानपुर, जिला रायसेन स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 135 रकबा 4.047 हेक्टेयर (10.00 एकड़)
4. चल सम्पत्ति :- नगद राशि रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) जमा।

(G-2531)

चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर (नगरीय) एवं पंजीयक, लोक न्यास,
जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 29 अक्टूबर 2024

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के
नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सतना जिला के समक्ष

प्र.क्र.-1276-अनु.अधि.-रीडर-2024.- यतः कि श्री रत्नेश गुप्ता तनय स्व. मुन्नालाल गुप्ता, निवासी हनुमान चौक सतना तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1. | न्यास का नाम :- | “श्री रामानुज वैष्णव सेवा न्यास” |
| 2. | न्यास का पता :- | श्री हनुमान चौक सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). |
| 3. | अचल सम्पत्ति :- | निरंक |
| 4. | चल सम्पत्ति :- | 11,000.00 (ग्यारह हजार रुपये) |

प्रारूप क्र. 05

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा -2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, राहुल सिलाड़िया, लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 16 दिसंबर 2024 को कथित अधिनियम की धारा - 5 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 16 अक्टूबर 2024 के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

(G-2532)

राहुल सिलाड़िया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

डबरा, दिनांक 14 नवम्बर 2024

प्रारूप - 4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम, 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास डबरा, जिला ग्वालियर के समक्ष

प्र.क्र. -01-24-25 बी-113(1)-2609.- चूंकि, आवेदक श्रीमती रानू कुशवाह पत्नी श्री रिपुदमन सिंह राजावत, निवासी एच-13 पी ब्लॉक मिनी दर्पण स्टेडियम के पास दर्पण कॉलोनी थाटीपुर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर एवं अन्य ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 3 दिसम्बर 2024 को विचार के लिए लिया जायेगा.

अतः मैं, दिव्यांशु चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी डबरा, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 14 नवम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	श्री सर्वेश्वर महादेव सेवा संस्थानम, ग्राम अकबई बडी, टेकनपुर
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण	
चल सम्पत्ति	निरंक
अचल सम्पत्ति	निरंक

(G-2533)

दिव्यांशु चौधरी (IAS), अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला-पांडुर्णा, मध्यप्रदेश

पांडुर्णा, दिनांक 20 नवम्बर 2024

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिए]

प्रकरण क्रमांक/0002/बी113(1)/2024-2025

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्रमांक-1462-कले.-लोक न्यास-2024.- यह कि श्री दादाराव पिता जगोबाजी बोबड़े, पता-वार्ड नं. 14, ग्राम-सावली, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा एवं अन्य संस्थापक सदस्य चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान (हनुमान लोक) सावली, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है. मैं, लोक न्यास पंजीयक पांडुर्णा, जिला-पांडुर्णा अपने न्यायालय में दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से "एक माह" अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता :- चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान (हनुमान लोक) सावली, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा (म.प्र.)

सम्पत्ति का विवरण :-

1. ग्राम सांवरी, प.ह.नं. 32, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा में चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर स्थापित भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	खसरा नं.	रकबा
1	33/2	0.0970
2	33/3	0.2220
3	34/1	0.2190
4	49/1	1.2420
5	49/2	1.2750
6	50/1	2.5420
7	57/4	0.0530
8	36/4	0.2820
9	36/1/2	0.0820
10	50/2	0.3040
11	34/2/1/1/2, 34/3/2	1.2140
12	51/2	0.7110
13	51/4/2	0.2070
14	51/1	0.7100
15	51/3/2	0.2870
16	35	0.0530
		9.5000

2. चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर सावली, तहसील-सौंसर, जिला-पांडुर्णा की विभिन्न खातों में उपलब्ध राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता नं.	खाते में उपलब्ध राशि
1	INDUSIAND BANK	SAUSAR	100042420292	248011.09
2	INDIAN BANK	SAUSAR	50338502198	826602.90
3	HDFC BANK	SAUSAR	50100633419531	1916860.55
4	HDFC BANK FD	SAUSAR	50301015104654	3000000.00
5	HDFC BANK FD	SAUSAR	50301017155747	2500000.00
6	HDFC BANK	PANDHURNA	22391450000020	42270.00
7	UBI	SAUSAR	63620201002234	48001174.97
8	CBI	SAUSAR	3596833293	3022044.69
9	CBI	SAUSAR	1512410260	367026.92
10	SEWA SAMITI	Jam sawali	409	56345.00
11	SEWA SAMITI	Jam sawali	261	1841.00
12	CASH BOOK (CASH IN HAND) DATE 14/08/2024			127200.00
	TOTAL			60109377.12

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 6 नवम्बर 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावों एवं आपत्तियों की सूचना]

क्र.-परिसमापन-02-2024.- निम्नलिखित सारणी के कॉलम 02 में दर्शित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ द्वारा सारणी के कॉलम 04 में दर्शित आदेश से अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सूची के कॉलम 02 में दर्शित सहकारी समितियों से संबंध समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वे नियम 57 (ग) की इस सूचना-पत्र का प्रकाशन दिनांक से 02 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मयप्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्य से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जायेगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तिका के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जायेगा.

सारणी-14

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक		परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक	
01	02	03		04	
1	महाराष्ट्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, राजगढ़	AR/RJH/313	25-02-1984	47	17-01-2024
2	सिंचाई नगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, जीरापुर	AR/RJH/329	19-09-1984	47	17-01-2024
3	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, तलेनी	AR/RJH/332	08-10-1984	47	17-01-2024
4	गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, राजगढ़	AR/RJH/300	31-12-1982	47	17-01-2024
5	गृह प्रबंधकारिणी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा	65	06-08-1952	686	05-11-2024
6	विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, राजगढ़	AR/RJH/307	05-10-1983	47	17-01-2024
7	चर्मकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर	97	12-10-1956	686	05-11-2024
8	बखतपुरा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा	146	26-06-1989	686	05-11-2024

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2535)

बी.एल. यादव, परिसमापक.

[नियम 57(ग) के तहत दावों एवं आपत्तियों की सूचना]

क्रमांक-परिसमापन-02.- निम्नलिखित सारणी के कॉलम 02 में दर्शित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ द्वारा सारणी के कॉलम 04 में दर्शित आदेश से अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सूची के कॉलम 02 में दर्शित सहकारी समितियों से संबंध समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वे नियम 57 (ग) की इस सूचना-पत्र का प्रकाशन दिनांक से 02 माह की अवधि में उनकी दावेदारी की राशि के संबंध में मयप्रमाण के लिखित में अपना दावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जायेगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तिका के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जायेगा.

सारणी

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक		परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक	
01	02	03		04	
1	शिक्षक आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	222	22-9-1980	686	5-11-2024
2	जवाहर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़	11	16-2-1963	686	5-11-2024
3	प्राथमिक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, राजगढ़	DR/RJH/821	6-08-2002	47	17-1-2024
4	प्राथमिक लायर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ब्यावरा	DR/RJH/830	31-10-2002	47	17-1-2024
5	सिदार्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, नरसिंहगढ़	DR/RJH/822	14-8-2002	47	17-1-2024
6	प्राथमिक म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, नरसिंहगढ़	DR/RJH/805	25-6-2002	47	17-1-2024
7	प्राथमिक शिक्षक आवास कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खिलचीपुर	DR/RJH/798	16-4-2002	47	17-1-2024

यह सूचना पत्र आज दिनांक 6 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2536)

हेमन्त कुमार चिड़ार, परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल, मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024-Q.- कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी-ग) के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2023/173 दिनांक 29 मार्च 2023 के द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
1.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., घोडंगा	1873/6.12.2017	आठनेर
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., लालखेड़ी	2124/10.9.2018	आठनेर

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) को उपयोग में लाते हुए मैं, पी.सी. गवले, सहकारी निरीक्षक परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी/ग) के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित समयवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

(G-2537)

पी.सी. गवले, परिसमापक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2024—अग्रहायण 1, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)